


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 181]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 मार्च 2010—वैत्र 6, शक 1932

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2010

क्र. 2065-129-इक्कीस-अ (प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 15 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## MADHYA PRADESH BILL

No. 15 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH MANTRI (VETAN TATHA BHATTA) SANSHODHAN  
VIDHEYAK, 2010

A Bill Further to amend the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Sanshodhan Adhiniyam, 2010.

(2) It shall be deemed to have come into force from the 26th day of March, 2010.

Substitution of Section 3.

2. For Section 3 of the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972) (hereinafter referred to as the principal Act), the following section shall be substituted, namely:—

Salaries of Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries.

“3. There shall be paid a salary per mensem of rupees thirty thousand to the Chief Minister, rupees twenty seven thousand to each Minister, rupees twenty five thousand to Minister of State, rupees twenty thousand to Deputy Minister and Parliamentary Secretary.”.

Substitution of section 4.

3. For Section 4 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Sumptuary allowance, constituency allowance and daily allowance.

“ 4. (1) There shall be paid to the Chief Minister, each Minister, Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary a sumptuary allowance of eighteen thousand rupees per mensem.

(2) There shall be paid to the Chief Minister, each Minister, Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary a constituency allowance of seventeen thousand rupees per mensem.

(3) There shall be paid to the Chief Minister, each Minister, Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary a daily allowance of seven hundred and fifty rupees within the State and nine hundred rupees outside the State per day during the term of office.”.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The salary, constituency allowance and daily allowance admissible to the Members of the Madhya Pradesh Legislative Assembly were increased from Rs. 9000 to Rs. 10000, Rs. 12000 to Rs. 16000, and from Rs. 400 to Rs. 750 within the State and from Rs. 500 to Rs. 900 outside the State respectively. It would, therefore, be appropriate to increase the salary, constituency allowance, sumptuary allowance and daily allowance of the Chief Minister, Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries. It is, therefore, proposed to amend the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972) suitably.

2. Hence this Bill.

Bhopal :

Dated the 26th March, 2010.

DR. NAROTTAM MISHRA  
Member-in-Charge.